



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 04.11.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा दीवाली के शुभअवसर पर वृद्धआश्रम पहुंचकर मिठाई, फल, उपहार देकर बुजुर्गों के साथ मनायी गयी दीपावली।

आज दिनांक **04.11.2021** को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा दीपावली पर्व के शुभअवसर पर थाना कोतवाली महोबा क्षेत्र अवस्थित वृद्ध आश्रम पहुंच कर वहां बुजुर्गों के साथ खुशियों के कुछ पल बिताये तथा उन्हें दीपावली त्यौहार की शुभकामनाएं देते हुए मिठाई व दीपावली उपहार भेंट किये तथा उनके साथ दीपावली की खुशियां मनाई तथा पुलिस अधीक्षक महोबा की तरफ से भोजन की व्यवस्था की गयी व उनके साथ बैठकर भोजन भी किया गया एवं सभी को दीपावली पर्व का शुभकामना संदेश दिया।

पुलिस अधीक्षक ने बुजुर्गों से साथ बातचीत की तथा उनके साथ समय व्यतीत किया जिससे सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे, संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा पुलिस के इस सराहनीय कदम की सराहना की गई, तत्पश्चात वृद्धआश्रम की देखरेख कर रहे केयर टेकर से सभी के रहन-सहन व अन्य मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी।

इसके उपरान्त जनपद में बेहतरीन कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु वृद्धआश्रम के केयर टेकर द्वारा पुलिस अधीक्षक महोबा व क्षेत्राधिकारी नगर को स्मृति चिन्ह व शॉल भेंट किया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बलराम सिंह, एसपी पी.आर.ओ. उमेश कुमार आदि अधि०/कर्म० मौजूद रहे।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 04.11.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



दीपावली के त्यौहार को खुशियों भरा मनाने के लिये महोबा पुलिस द्वारा जरूरतमंद/ गरीब परिवारों के महिलाओं/ बच्चों को मोमबत्ती, मिट्टी के दीपक, वस्त्र आदि उपयोगी वस्तुओं को वितरण किया गया।



पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के आदेश के क्रम में आज दिनांक **04.11.2021** को दीपावली पर्व के अवसर पर जनता में भयमुक्त वातावरण/सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी/चौकी प्रभारी द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित भीड़-भाड़ वाले स्थानों, बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन इत्यादि स्थानों पर पैदल गस्त करते हुए संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेंकिंग की जा रही है एवं इसके अतिरिक्त हमारे देश में तमाम अनाथ बच्चे एवं गरीब परिवार संसाधन के अभाव में त्यौहार नहीं मना पाते हैं, इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देश दिए गए कि अनाथ बच्चों एवं गरीब परिवारों के साथ कुछ समय व्यतीत कर खुशियां बांटने जैसा मानवीय कार्य किया जाए। दीपावली के शुभ अवसर पर अनाथ आश्रम/गरीब परिवार के बच्चों में मिष्ठान, दिए, मोमबत्ती, फल, वस्त्र, इत्यादि भेंट किए जाएं जिससे सभी के द्वारा दीपावली के त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके। एवम् दीपावली को गरीब असहाय/ बच्चों /महिलाओं इत्यादि के द्वारा हर्षोल्लास एवं खुशियों भरा मनाए जाने के लिए जनपद के समस्त

अधिकारियों/कर्मचारियों/थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों द्वारा पुलिस बल के साथ गांवों में पहुंचकर असहाय गरीब लोगों को मिठाइयां, फल- फूल, मिट्टी के दिए, मोमबत्ती इत्यादि दीपावली के त्यौहार पर उपयोग होने वाली वस्तुओं को देकर उनके साथ दीपावली की खुशियों में प्रतिभाग किया गया। महोबा पुलिस के इस कार्य से सभी को बहुत ही खुशियां मिली और सभी के द्वारा महोबा पुलिस की भूरी-भूरी प्रशंसा की गई व दुवाएं दी गयी। इसी क्रम में प्रतिसार निरीक्षक श्री सैन्यजीत सिंह द्वारा पुलिस लाइन में पुलिस परिवार के साथ पूजा कर दीवाली मनायी गयी तथा मिट्टी के दिए से पुलिस लाइन को सजाया गया।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 04.11.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



Mahoba Police